



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 130]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 10, 2006/माघ 21, 1927

No. 130]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 10, 2006/MAGHA 21, 1927

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 फरवरी, 2006

का. आ. 198(अ).—केन्द्रीय सरकार, सिक्का निर्माण अधिनियम, 1906 (1906 का 3) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अवधारित करती है कि :—

(क) "भारतीय स्टेट बैंक द्विशतवार्षिक वर्ष" का स्मरणोत्सव मनाने के लिए केन्द्रीय सरकार के प्राधिकार के अधीन जारी करने के लिए टकसालों में निम्नलिखित अंकित मूल्य के सिक्कों का निर्माण भी किया जाएगा, अर्थात् :—

(i) एक सौ रुपए;

(ii) पांच रुपए;

(ख) उक्त अधिनियम की धारा 6 के उपबंधों के अनुसार निर्मित किए जाने वाले यथापूर्वोक्त एक सौ रुपए और पांच रुपए के अंकित मूल्य के सिक्के निम्नलिखित विमाओं, डिजाइन और धातु संरचना के अनुरूप होंगे, अर्थात् :—

सिक्के का अंकित मूल्य	रूप और बाह्य व्यास	सिक्के की संख्या	धातु संरचना
(1)	(2)	(3)	(4)
एक सौ रुपए	गोल 44 मिलीमीटर	200	चतुर्थक मिश्र धातु चांदी—50 प्रतिशत तांबा—40 प्रतिशत निकल—5 प्रतिशत जिंक—5 प्रतिशत
पांच रुपए	गोल सुरक्षा किनारों सहित 23 मिलीमीटर	—	तांबा-निकल धातु तांबा—75 प्रतिशत निकल—25 प्रतिशत

डिजाइन**1. एक सौ रुपए****मुख्य भाग**

सिक्के के मुख्य भाग पर अशोक स्तंभ का सिंह शीर्ष होगा जिसके नीचे "सत्यमेव जयते" इबारत अंतर्लिखित होगी, उसकी ऊपरी बाईं परिधि पर हिन्दी में "भारत" शब्द और ऊपरी दाईं परिधि पर अंग्रेजी में "INDIA" शब्द होगा। उस पर सिंह शीर्ष के नीचे अंतर्राष्ट्रीय अंकों में अंकित मूल्य "100" भी होगा और निचली बाईं परिधि पर हिन्दी में "रुपए" शब्द और निचली दाईं परिधि पर अंग्रेजी में "RUPEES" शब्द होगा।

पृष्ठ भाग

सिक्के के पृष्ठ भाग पर केन्द्र में "भारतीय स्टेट बैंक" का लोगो होगा और बाईं तरफ वर्ष "1806" और दाईं तरफ वर्ष "2006" होंगे। बाईं और दाईं परिधि पर पत्तियों पर कुछ डिजाइन कार्य हैं। "भारतीय स्टेट बैंक" शब्द हिन्दी में सिक्के के शिखर पर लोगो के ऊपर लिखे गए हैं और "STATE BANK OF INDIA" शब्द अंग्रेजी में सिक्के के अधोभाग पर "स्टेट बैंक ऑफ इंडिया" के लोगो के नीचे लिखे गए हैं।

2. पांच रुपए**मुख्य भाग**

सिक्के के मुख्य भाग पर अशोक स्तंभ का सिंह शीर्ष होगा जिसके नीचे "सत्यमेव जयते" इबारत अंतर्लिखित होगी, उसकी ऊपरी बाईं परिधि पर हिन्दी में "भारत" शब्द और ऊपरी दाईं परिधि पर अंग्रेजी में "INDIA" शब्द होगा। इस पर अंतर्राष्ट्रीय अंकों में अंकित मूल्य "5" भी होगा और निचली बाईं परिधि पर हिन्दी में "रुपए" शब्द और निचली दाईं परिधि पर अंग्रेजी में "RUPEES" शब्द होगा। परिधि पर 52 मनके होंगे।

पृष्ठ भाग

सिक्के के पृष्ठ भाग पर केन्द्र में "भारतीय स्टेट बैंक" का लोगो होगा और बाईं तरफ वर्ष "1806" और दाईं तरफ वर्ष "2006" होंगे। बाईं और दाईं परिधि पर पत्तियों पर कुछ डिजाइन कार्य हैं। शब्द "भारतीय स्टेट बैंक" शब्द हिन्दी में सिक्के के शिखर पर लोगो के ऊपर लिखे गए हैं और अंग्रेजी में "STATE BANK OF INDIA" शब्द सिक्के के अधोभाग पर "स्टेट बैंक ऑफ इंडिया" के लोगो के नीचे लिखे गए हैं। परिधि पर 52 मनके होंगे।

5 रुपए के सिक्के के लिए सुरक्षा किनारा

सिक्के का किनारा सिरेशित या उर्ध्वाधर पेषण और सुरक्षा किनारे से यंत्रनिर्मित होगा। किनारे के मध्य में रिक्त जगहों द्वारा पृथक किए हुए दो खंडों के अन्दर की ओर डिजाइन में उथला खांचा होगा। इस डिजाइन में उभार में मनकों की शृंखला अंतर्विष्ट होगी और प्रत्येक मनका उभार में झुकी हुई एक पंक्ति द्वारा अनुगम किए होगा। इसमें कुल 30 पंक्तियां और 30 मनके होंगे।

[फा० सं० 7/9/2003-सिक्का II (II)]

नीलम बाला कपूर, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th February, 2006

S.O. 198(E).— In exercise of the powers conferred by Section 6 of the Coinage Act, 1906 (3 of 1906), the Central Government hereby determines that :—

(a) the coins of the following denominations shall also be coined at the Mint for issue under the authority of the Central Government to commemorate "STATE BANK OF INDIA BICENTENNIAL YEAR", namely :—

- (i) One Hundred Rupees;
- (ii) Five Rupees;

(b) the coins of the denominations of One Hundred Rupees and Five Rupees as aforesaid to be coined in accordance with the provisions of Section 6 of the said Act shall conform to the following dimensions, designs and composition, namely :—

Denomination of the coin	Shape and outside diameter	Number of serrations	Metal composition
(1)	(2)	(3)	(4)
One Hundred Rupees	Circular 44 millimeters	200	Quaternary Alloy Silver—50% Copper—40% Nickel—5% Zinc—5%
Five Rupees	Circular 23 millimeters with security edges	100	Cupro-Nickel Alloy Copper—75% Nickel—25%

DESIGNS**1. ONE HUNDRED RUPEES****OBVERSE**

This face of the coin shall bear the Lion Capitol of Ashoka Pillar with the legend “सत्यमेव जयते” inscribed below, flanked on the left upper periphery with the word “भारत” in Hindi and on the right upper periphery flanked with the word “INDIA” in English. It shall also bear the denominational value “100” in International Numerals below the Lion Capitol flanked on the left lower periphery with the word “रुपये” in Hindi and right lower periphery with the word “RUPEES” in English.

REVERSE

This face of the coin shall bear the Logo of “STATE BANK OF INDIA” in the centre flanked on the left side with the year “1806” and on the right side with the year “2006”. The left and right upper periphery is flanked by some design works on leaves. The words “भारतीय स्टेट बैंक” in Hindi, are written on the top of the coin above the logo and the words “STATE BANK OF INDIA” in English are written on the bottom side of the coin below the logo of “STATE BANK OF INDIA”.

2. FIVE RUPEES**OBVERSE**

This face of the coin shall bear the Lion Capitol of Ashoka Pillar with the legend “सत्यमेव जयते” inscribed below, flanked on the left upper periphery with the word “भारत” in Hindi and on the right upper periphery flanked with the word “INDIA” in English. It shall also bear the denominational value “5” in International Numerals below the Lion Capitol flanked on the left lower periphery with the word “रुपये” in Hindi and right lower periphery with the word “RUPEES” in English. There shall be 52 beads on the periphery.

REVERSE

This face of the coin shall bear the Logo of “STATE BANK OF INDIA” in the centre flanked on the left side with the year “1806” and on the right side with the year “2006”. The left and right upper periphery is flanked by some design works on leaves. The words “भारतीय स्टेट बैंक” in Hindi, are written on the top of the coin above the logo and the words “STATE BANK OF INDIA” in English is written on the bottom side of the coin below the logo of “STATE BANK OF INDIA”. There shall be 52 beads on the periphery.

SECURITY EDGE FOR 5 RUPEES

The edge of the coin shall be milled with serrated or upright milling and security edge. At the center of the edge there shall be shallow groove with a design inside the two sections separated by blank spaces. This design shall consists of chain of beads in relief and each bead being followed by one inclined line in relief. There shall be total 30 lines and 30 beads.

[F. No. 7/9/2003-Coin II (II)]

NEELAM BALA KAPOOR, Under Secy.